



**BSE** Limited

Corporate Relationship Department 2nd Floor, New Trading Ring, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 Script Code - 500350 National Stock Exchange of India Ltd

Exchange Plaza, 5" Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex,

Bandra(E), Mumbai — 400 051

SYMBOL: RSWM

Dear Sir / Madam,

Subject: Intimation regarding compliance with Regulation 92(2) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended ("SEBI ICDR Regulations") and Regulation 30 read with Schedule III of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("SEBI Listing Regulations") - Newspaper Advertisement

Further to our earlier intimations dated December 12, 2022, December 21, 2022, December 23, 2022, January 2, 2023 and January 6, 2023 in relation to the proposed issuance of fully paid-up Equity Shares for an amount aggregating up to Rs.23,550.84 Lakhs (assuming full subscription) on a rights basis to the Eligible Equity Shareholders of the Company as on the Record Date i.e., December 16, 2022 in accordance with the SEBI ICDR Regulations and other applicable laws including the circulars issued by SEBI from time to time, we enclose copies of post issue newspaper advertisements issued by the Company and published today, i.e., January 18, 2023 (i) in all editions of Financial Express, an English national daily newspaper; (ii) in all editions of Jansatta, a Hindi national daily newspaper; and (iii) Dainik Navjyoti, a Hindi daily newspaper circulated in Bhilwara, Rajasthan (Hindi being the regional language of Rajasthan, where the Company's registered office is located).

All capitalized terms used and not specifically defined herein shall have the same meaning as ascribed to such terms in the letter of offer dated December 13, 2022. Kindly take the above on your records.

Thanking you,

Yours faithfully, For RSWM LIMITED

#### SURENDER GUPTA VICE PRESIDENT – LEGAL & COMPANY SECRETARY FCS – 2615

(Formerly Rajasthan Spinning & Weaving Mills Limited)

#### Corporate Office:

Bhilwara Towers, A-12, Sector-1 Noida - 201 301 (NCR-Delhi), India Tel: +91-120-4390300 (EPABX) Fax: +91-120-4277841

Fax: +91-120-4277841 Website: www.rswm.in GSTIN: 09AAACR9700M1Z1

#### Regd. Office:

Kharigram, P. B. No. 28, Post Office Gulabpura - 311 021

Distt. Bhilwara, (Rajasthan), India

Tel.: +91-1483-223144 to 223150, 223478

Fax: +91-1483-223361, 223479 Website: www.lnjbhilwara.com GSTIN: 08AAACR9700M1Z3

Corporate Identification Number: L17115RJ1960PLC008216



MUTUAL

#### Nippon Life India Asset Management Limited

(CIN - L65910MH1995PLC220793)

Registered Office: 4th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganapatrao Kadam Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400 013. Tel No. +91 022 6808 7000

Fax No. +91 022 6808 7097 • mf.nipponindiaim.com NOTICE NO. 74

Record Date January 20, 2023#

Notice is hereby given that the Trustee of Nippon India Mutual Fund ("NIMF") has approved the following Distribution on the face value of Rs. 10/- per unit under Income Distribution cum capital withdrawal (IDCW) option of the undernoted schemes of NIMF, with January 20, 2023 as the record date:

Name of the Scheme(s)	Amount of Distribution (₹ per unit)*	NAV as on January 16, 2023 (₹ per unit)
Nippon India Consumption Fund - IDCW Option		31.1787
Nippon India Consumption Fund - Direct Plan - IDCW Option	2.50	43.3663
Nippon India Vision Fund - IDCW Option	V-0-00000	46.8824
Nippon India Vision Fund - Direct Plan - IDCW Option	2.00	51.4780

\*Income distribution will be done, net of tax deducted at source, as applicable.

or the immediately following Business Day if that day is a non-business day: Pursuant to payment of dividend/IDCW, the NAV of the Schemes will fall to the extent

of payout, and statutory levy, if any. The IDCW payout will be to the extent of above mentioned Distribution amount per unit or to the extent of available distributable surplus, as on the Record Date mentioned above, whichever is lower.

For units in demat form: IDCW will be paid to those Unitholders/Beneficial Owners whose names appear in the statement of beneficial owners maintained by the Depositories under the IDCW Plan/Option of the Schemes as on record date.

All unit holders under the IDCW Plan/Option of the above mentioned schemes, whose names appear on the register of unit holders on the aforesaid record date, will be entitled to receive the IDCW.

> For Nippon Life India Asset Management Limited (Asset Management Company for Nippon India Mutual Fund)

Mumbai January 17, 2023

**Authorised Signatory** 

#### Make even idle money work! Invest in Mutual Funds

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

This is an advertisement for information purposes only and not for publication or distribution outside India and is not an offer document announcement. All capitalized terms used and not defined herein shalf have the meaning assigned to them in the letter of offer dated December 13, 2022 (the "Letter of Offer" or "LDF") filed with the Stock Exchanges, namely BSE Limited ("BSE"), National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

## RSWM Limited

RSWM Limited ("Our Company" or "Issuer") was originally incorporated as "Rajasthan Spinning and Weaving Mills Ltd." on October 17, 1960, as a public limited company under the Companies Act, 1956 and a certificate of incorporation was granted to our Company by the Registrar of Companies, West Bengal at Calcutta. Our Company received the Certificate of commencement of Business from the Registrar of Companies, West Bengal at Calcutta on December 29, 1960. Subsequently, the name of our company was changed to "RSWM Limited" pursuant to which a fresh certificate of incorporation was granted on July 31, 2006 by the Registrar of companies. Rajasthan at Jaipor ("ROC"). For further details in relation to changes in the registered office of our company, see "General Information" on page 37 of the Letter of Offer ("LOF").

Registered Office: Kharigram, PO Gulabpura - 311 021, Bhilwara, Rajasthan; Corporate Office: Bhilwara Towers, A-12, Sector - 1, Noida - 201 301, Uttar Pradesh, India Contact Person: Surender Gupta, Company Secretary and Compliance Officer; Telephone; +91 120 439 00000; E-mail: rswm.investors@Injbhilwara.com Website: www.rswm.in; Corporate Identification Number: L17115RJ1960PLC008216

PROMOTERS OF OUR COMPANY: LAKSHMI NIWAS JHUNJHUNWALA AND RAVI JHUNJHUNWALA ISSUE OF UP TO 2.35.50.842 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH OF OUR COMPANY ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 100 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF 7 90 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO 7 23.550.84 LAKHS\* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 (ONE) EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, THAT IS, ON DECEMBER 16, 2022 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE' BEGINNING ON PAGE 190 OF THE LETTER OF OFFER.

#### BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of RSWM Limited wishes to thank all its members and investors for the overwhelming response to the Company's Rights Issue of Equity Shar opened for subscription on Friday. December 23, 2022 and closed on Friday, January 06, 2023 and the last date for market renunciation of Rights Entitlements was Monday January 02, 2023. Out of the total 10,595 Applications for 3,05,24,073 Equity Shares, 371 Applications for 1,26,601 Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in \*Terms of the Issue - Grounds for Technical Rejection\* on page 198 of the LOF. The total number of valid applications received were 10,224 for 3,03,97,472 Equity Shares, which aggregates to 129.07% of the total number of Equity Shares allotted under the Issue. The basis of allotment finalized on Thursday, January 12, 2023 in consultation with the Lead Manager, the Registrar to the Issue and BSE, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Company allotted 2.35,50,842 Rights Equity Shares to the successful applicants on Friday, January 13, 2023. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. We hereby confirm that all the valid applications have been considered for Allotment.

1. The break-up of application received and rejected from the Shareholders and the Renouncees is as under:

Catanani	Gross Applications		Less: Rejections/Partial Amount			Valid Applications			
Category	Nos.	<b>Equity Shares</b>	Amount (Rs.)	Nos.	<b>Equity Shares</b>	Amount (Rs.)*	Nos.	Equity Shares	Amount (Rs.)
Eligible Shareholders	10,239	3,00,45,984	300,45,98,400	371	126,601	1,26,60,100	9,868	2,99,19,383	299,19,38,300
Renounces	356	478,089	4,78,08,900				356	478,089	4,78,08,900
Total	10,595	3,05,24,073	305,24,07,300	371	126,601	1,26,60,100	10,224	3,03,97,472	303,97,47,200

\*Amount includes for partially rejected cases.

Category	No. of Applications	Number of Rights Equity Shares Allotted - against Entitlement (A)	Number of Rights Equity Shares Allotted - against Entitlement (B)	Total Rights Equity Shares Allotted (A+B)
Shareholders	9,868	2,08,41,516	24.20,357	2,32,61,873
Renounces	356	288,969	0	2.88,969
Total	10,224	2,11,30,485	24,20,357	2,35,50,842

Intimations for Allotment/refund/rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the investors has been completed on January 17, 2023. The instructions to SCSBs for unblocking funds in case of ASBA applications were given on January 12, 2023. The Listing application was filed with BSE and NSE on January 13, 2023 and subsequently the listing approvals were received on January 16, 2023 from BSE and NSE. The credit of Rights Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of allottees was completed on January 17, 2023 by NSDL and CSDL respectively. The trading in the Rights Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on BSE and NSE upon receipt of trading permission. The trading is expected to commence on or about January 20, 2023 Further, in accordance with SEBI circular bearing reference - SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020 the request for extinguishment of Rights Entitlements will be sent to NSDL & CDSL on or about January 18, 2023

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM

Website: www.kfintech.com

Contact person: Murali Krishna M

Validity of Registration: Permanent

SEBI Registration No: INR000000221

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the submission of the Letter of Offer to SEBI should not in any way deemed or construed that the LOF has been cleared or approved by SEBI. The investors are advised to refer to the LOF for the full fext as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures -Disclaimer Clause of SEBI\* on page 184 of the LOF

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not, in any way, be deemed or construed that

the LOF has been cleared or approved by the BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the LDF. The investors are advised to refer to the LDF for the full text of the Disclaimer clause of BSE as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of BSE" on page 187 of the LDF. DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not, in anyway, be deemed or construed that the LOF has been cleared or approved by NSE; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the LDF. The investors are advised to refer to the LDF for the full text of the

Disclaimer Clause of NSE as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of NSE" on page 187 of the LOF.

REGISTRAR TO THE ISSUE

#### SKP SECURITIES LTD

1702-03, BioWonder, 789 Anandapur, E M Bypass, Kolkata - 700 107, West Bengal, India Tel No.: +91 33 6677 7000 Email: contact@skpsecurities.com

**LEAD MANAGER TO THE ISSUE** 

Website: www.skpsecurities.com Investor Grievance Email: grievance.cell@skpsecurities.com Contact Person: Anup Kumar Sharma SEBI Registration No. INM000012670 Validity of Registration: Permanent

KFINTECH KFIN TECHNOLOGIES LIMITED

(Formerly known as KFin Technologies Private Limited)

Selenium, Tower B, Plot No. 31 and 32, Financial District Nanakramguda. Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi 500 032 Telangana, India Telephone: +91 40 6716 2222 / 1800 309 4001 E-mail: rswm.rights@kfintech.com Investor grievance Email: Einward.ris@kfintech.com

Investors may contact the Registrar to Issue / Company Secretary in case of any such as non-receipt of Allotment advice/demat credit etc.

COMPANY SECRETARY AND

COMPLIANCE OFFICER

SURENDER GUPTA

Noida - 201 301, Uttar Pradesh, India

E-mail: rswm.investors@lnjbhilwara.com

Bhilwara Towers, A-12, Sector - 1

Telephone: +91 120 439 00000

Website: www.rswm.in

investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre issue or post issue related matter. All grievances relating the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs giving full details such as name, address of the applicant, contact number(s), e- mail address of the sole / first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked ASBA Account number, and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper applications as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip. For

further details on the ASBA process, please refer to the section titled "Terms of the Issue - Making of an Application through the ASBA process" on page 192 of the LOF. THE LEVEL OF SUBSCRPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

Place: Noida Date: January 17, 2023

SURENDER GUPTA Company Secretary & Compliance Officer

Disclaimer: Our Company has filed a Letter of Offer with the Securities and Exchange Board of India and Stock Exchanges. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the websites of the Stock Exchanges where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com, and the website of the Lead Manager at www.skpsecurities.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the LOF including the section "Risk Factors" beginning on page 16 of the LOF. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States unless registered under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

P+LY/MED

#### POLY MEDICURE LIMITED Regd. Off .:- 232-8, Third Floor, Okhia

ial Estate, Phase-III, New Delhi-110020 CIN: L403000L1995PLC066923 Tel: 011-33550700, Fax: 011-26321894 Email: investorcare@polymedicure.com Website: www.polymedicure.com NOTICE

Votice is hereby given that pursuant to isions of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements igulations, 2015, Meeting of the Board of rectors of the Company will be held on laturday, the 28" January, 2023 inter alia

- To consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the Third quarter and nine months ended or 31" December, 2022.
- To transact any other matter which the Board may deem fit.

For Poly Medicure Limited Avinash Chandra Place: New Delhi Date: 17.01.2023 Company Secretary









#### DELHI JAL BOARD (Govt. of N.C.T. of Delhi) OFFICE OF THE ACE (DR.) PROJECT-III THROUGH EXECUTIVE ENGINEER (C) DR.VIII Yamuna Vihar Sewage Treatment Plant (Adjoining Dr. Ambedkar College)

Delhi - 110094 PHONE 011-22813593 e-mail:- eeedr8@gmail.com

EE(C) DR-VIII

-		PRESS NIT	NO. 09 (2	022-23)		
S. No.	Name of Work	Estimated Contract Value (ECV) / Amount put to tender (Rs.)	Earnest Money (EMD) (Rs.)	Tender processing Fee Non Refundable (Rs.)	Date of Release of Tender/ Tender Id.	Last date /time of receipt of tender
+	Providing 5 Laying 300 mm to 900 mm Nominal Dia Internal and Peopheral Sewer Line in Shri Ram Colony, Rajiv Nagar and Part of Sonia Viher in Karawal Nagor Delhi	4.035.80.054.00	92,18,500	1500/-	2023 DJB _234916_1 Dated:16.01.2023	30.01.2023 upto 3:00 P.M.
Pur	ther details in this repart can be seen at	https://govtorocure	ment dethi c	ovin:		

ISSUED BY P.R.O. (WATER) Advt. No. J.S.V. 452 (2022-23 "Stop Corona: Wash Your Hand, Wear Mask, Maintain Social Distancing"

## **TV18 Broadcast Limited**

CIN: L74300MH2005PLC281753

Regd. Office: First Floor, Empire Complex, 414 - Senapati Bapat Marg, Lower Parel. Mumbai - 400 013 Tel: +91 22 6666 7777/ 4001 9000

Website: www.nw18.com | E-mail: investors.tv18@nw18.com

#### EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31<sup>57</sup> DECEMBER, 2022.

(₹ in lakh, except per share data)

Particulars	Quarter Ended 31" Dec' 2022	Nine Months Ended 31" Dec' 2022	Quarter Ended 31" Dec' 2021
Value of Sales and Services	2,07,263	5,27,362	1,82,419
Goods and Services Tax included in above	30,492	76,743	25,711
Revenue from Operations	1,76,771	4,50,619	1,56,708
Profit/ (Loss) for the period before Tax	2,422	9,409	35,559
Profit/ (Loss) for the period after Tax *	3,781	10,811	31,155
Total Comprehensive Income for the period (after tax)	4,056	10,855	31,416
Paid up Equity Share Capital, Equity Shares of ₹ 2 each	34,287	34,287	34,287
Other Equity excluding Revaluation Reserve **			
Earnings per Equity Share (Face Value of ₹ 2 each) (Not Annualised)	2752015	950,000	
1- Basic (₹)	0.24	0.47	1.17
2- Diluted (₹)	0.24	0.47	1.17

- Includes Non-Controlling Interest
- \*\* Reserves excluding revaluation reserve for the year ended as on 31" March, 2022 was ₹4,43,680 lakh.

- The Audit Committee has reviewed the above results and the Board of Directors has approved the above results and its release at their respective meetings held on 17" January, 2023. The Statutory Auditors of the Company have carried out a Limited Review of the aforesaid results.
- 2 Additional information on Unaudited Standalone Financial Results is as follows:

(₹ in lakh)

Particulars	Quarter Ended 31" Dec' 2022	Nine Months Ended 31" Dec' 2022	Quarter Ended 31" Dec' 2021
Value of Sales and Services	38,347	1,04,488	40,657
Goods and Services Tax included in above	5,632	15,366	5,994
Revenue from Operations	32,715	89,122	34,663
Profit/ (Loss) for the period before Tax	1,992	(336)	9,656
Profit/ (Loss) for the period after Tax	3,162	1,418	7,205
Total Comprehensive Income for the period (after tax)	3,356	1,562	7,259

3 The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Financial Results for the guarter and nine months ended 31st December, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the guarter and nine months ended 31" December, 2022 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com/ www.nseindia.com) and Company's website (www.nw18.com).

For TV18 Broadcast Limited

Date: January 17, 2023

Chairman



Franklin Templeton Mutual Fund Registered Office: One International Center, Tower 2, 12th and 13th Floor,

Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai 400013

Income Distribution cum capital withdrawal (IDCW) in Franklin India Equity Savings Fund

The Trustees of Franklin Templeton Mutual Fund have decided to distribute the following Income Distribution cum capital withdrawal (IDCW):

Face Value Amount of IDCW NAV per Unit as on Name of the Schemes / Plans / Options per Unit (₹) per Unit' (₹) January 16, 2023 (₹) Franklin India Equity Savings Fund (FIESF) FIESF - Monthly IDCW Plan 0.015 11.6180 10.00 FIESF - Monthly IDCW Plan - Direct 0.070 12.4137

The Record Date for the same will be January 20, 2023 (Friday). If in case the Record Date falls on a non-Business Day, the immediately following Business Day shall be the Record Date. All the Unitholders / Beneficial Owners of the IDCW plan / option of the scheme whose names appear in the records of Registrar / Depositories as on the Record Date shall be entitled to receive IDCW. The investors in the IDCW re-investment plan/option will be allotted units for the IDCW amount at the NAV of next Business Day after the Record Date.

# Please note that the IDCW payout shall be subject to the availability of distributable surplus and if the available distributable surplus as on the record date is lower than the aforementioned IDCW rate, then the available distributable surplus shall be paid out. The payout shall be subject to tax deducted at source i.e. TDS, as applicable.

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the scheme would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

For Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd.

(Investment Manager of Franklin Templeton Mutual Fund)

**Authorized Signatory** Date: January 17, 2023

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.









शुब्दि पत्र कृपया, 31.12.2022 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित सरफैसी अधिनियम,

क्षेत्रीय कार्यालय (सेंट्रल) 1398, प्रथम तल, चाँदनी चौक, दिल्ली-110006

2002 के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्की के लिये ई-नीलामी सुचना तिथि 24.1.2022 (15 दिनों की सूचना) का हमारा विज्ञापन देखें। क्रम सं. 1-मै. मुचुअल फार्मा प्रा.लि. तथा मै. दक्ष केमिस्ट की एक खाता में नियमों एवं शर्ती में परिवर्तन किया गया है। वर्तमान में शर्त ''जैसा है जहाँ है'', ''जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहाँ है" आधार पर है जिसे इस प्रकार पढ़ें: "केवल परिसर का भूमि तथा भवन ही ई-नीलामी के अंतर्गत चिक्की के लिये है" तथा ''परिसर में विद्यमान वस्तु बिक्री के लिये नहीं है''। नीलामी के अन्य निवम एवं शतै पूर्ववत रहेंगे।

प्राधिकृत अधिकारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

टाटा कैपिटल फाइर्लेशियल सर्विसेज लिमिटेड शाबा पता : 7वीं मंजल वीवियोकॉन टॉवर, ब्लॉक ई-1, T∧T∧ झंडेवालान एक्सटेंशन, रानी झाँसी रोड, नई दिल्सी --110055

मांग नोटिस

प्रतिषूति हित (मवर्तन) नियम, 2002 ('नियमावली ') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अभिनियम, 2002 ('अभिनियम') की वारा 13(2) के तहत

1. श्री तरुग अग्रवाल

2. श्री दिनेक अववाल सुबी रेणु अग्रवास

सनी निवासी एवा नंबर 75स. वार्ड नं 5. सेक्टर —14. गुरुधाण, हरियामा. 123007 4. मैसर्स **कीअपटी स्टील प्रा. तिमिटेड**, अपने निवेशक के माध्यम से, प्लॉट नंबर-पंजीकृत कार्यालय 86. सेक्टर-7. आईएमटी मानेसर, गुढ़गांव,हरियाणा—122002

प्रिय महोदय / महोदया. टीसीएफएसएल द्वारा आपको दिए गए होम इकिवटी (एलएपी) ऋण के तहत ब्याज के साथ 29.11 2016 को पाया ऋण द्याता संख्या 6752126 और 28.11.2016 को ऋण द्याता संख्या 6765522 वें तहत रु.1.20,00.009 / — ऋण रक्षाता नमों के माध्यम से टाटा कॅपिटल फाइनेंशियल सर्विसंज विमिटेड (इसके बाद "टीसीएकएसएल" के रूप में संदर्शित) को दिनांक 16.01.2023 को कुल 3.25.16,629/- (रुपर तीन करोड़ पच्चीस लाख सोलह डजार छह सी उनतीस मात्र) देव हैं। हमारे बार-बार अनुरोध के बावजूद, आपने अपने खाते में बकाया किसी भी तति का गुणतान नहीं किया है जिसे 08.12.2022 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। टीसीएफएसएस की देय राशि क भूगतान करने में आपके चुक के कारण,भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, मैंने स्वय . टाटा कॅपिटल फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वितीय परिसंपत्तियों के प्रतिमृतिकरण और पुनर्गिर्माण तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 व प्रावधानों के अनसरण में सपरोक्त अधिनियम के धारा 13(2) के तहत 16.01.2023 को एक नोटिर जारी किया गया था जिसमें आपको उक्त ऋण राशि रु. 3,25,16,629/-एवं मर्विष्य के ब्याज एर लागत की राशि को नोटिस के 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया है। जिसमें विफल होने पर टीसीएफएसएस नीचे वर्णित संपत्ति पर टीसीएफएसएस के पक्ष में आपके द्वारा निर्मित प्रतिमृति हित प्रवर्तन सहित उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत विवर्शमत सभी या किसी र्य

**अनुसूची—क: : संपत्ति संख्या 1:** मकान संख्या 799, वार्ड संख्या 5, क्षेत्रफल 250 वर्ग गज , सेक्ट अर्बन एस्टेट, गुजगांव १२२००१, हरियाणा

स्वरी संख्या 2 ग्राम सर्वतित पुरुषांच राहासीत और जिले गुरुगांच में स्थित किला नवर 26/6/2/5 में 1 कनाल 3 मरला जी भूमि, श्री दिनेश अद्ययाल के यहा में दिनांक 38.05.2005 को सेल बीड में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। शीमाबदा: पूर्ट 30 फीट भीड़ा तस्ता, पविषय अन्य संपत्ति, चतर अन्य संपत्ति; दक्षिण बाबू तम जैन की संपत्ति,

दिनांच 16.09.2023 के मांग जीटेस की प्रमादीरायक सेवा सुनिशिक्त करने के दृष्टिकांच के तहत, इन करिया प्रकारत के माध्यन से उत्तर नीटिस की ग्रामील कर रहे हैं। आपको उपनोठ अधिनियम की धारा 15(2) के तहत दृश नोटिस के 80 दिनों के मीतर उपयुक्त वासिक्त का निर्देशन करने के लिए कहा जाता है. दिसाके विभन्न होने पर टीसीएकएसएल उपयोक्त अधिनेयम के तकत वजा 13(4) के तकत सभी या किसी में अधिकार कर प्रयोग करेगा। अध्यक्ष यह भी सुचित किया जाता है कि उपरोक्त अधिनिध्यम की वजा 13(13) की क्षतों के अनुसार आध्य विकी, यहे II अन्यास रामरोक्त अतिकृति। संपत्तियों को हस्ताद्वरित नहीं करेंचे।

रथान : नई दिल्ली दिनांक: 17/01/2023

have been considered for Allotment.

Nos.

Category

Shareholders

Renounces

Eligible

RSWM Limited

हस्ता /- अविकृत अविकारी टाटा वैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

This is an advertisement for information purposes only and not for publication or distribution outside India and is not an offer document announcement. All capitalized terms

used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated December 13, 2022 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Stock

RSWM Limited ("Our Company" or "Issuer") was originally incorporated as "Rajasthan Spinning and Weaving Mills Ltd." on October 17, 1960, as a public limited company

under the Companies Act, 1956 and a certificate of incorporation was granted to our Company by the Registrar of Companies, West Bengal at Calcutta. Our Company

received the Certificate of commencement of Business from the Registrar of Companies, West Bengal at Calcutta on December 29, 1960. Subsequently, the name of our

company was changed to "RSWM Limited" pursuant to which a fresh certificate of incorporation was granted on July 31, 2006 by the Registrar of companies, Rajasthan at Jaipur ("ROC"). For further details in relation to changes in the registered office of our company, see "General Information" on page 37 of the Letter of Offer ("LOF").

Registered Office: Kharigram, PO Gulabpura - 311 021, Bhilwara, Rajasthan; Corporate Office: Bhilwara Towers, A-12, Sector - 1, Noida - 201 301, Uttar Pradesh, India

Contact Person: Surender Gupta, Company Secretary and Compliance Officer; Telephone: +91 120 439 00000; E-mail: rswm.investors@injbhilwara.com

Website: www.rswm.in; Corporate Identification Number: L17115RJ1960PLC008216

PROMOTERS OF OUR COMPANY: LAKSHMI NIWAS JHUNJHUNWALA AND RAVI JHUNJHUNWALA

ISSUE OF UP TO 2,35,50,842 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH OF OUR COMPANY ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 100 PER

RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 90 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 23,550.84 LAKHS† ON A RIGHTS BASIS TO THE

ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 (ONE) EQUITY SHARES HELD BY THE

ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, THAT IS, ON DECEMBER 16, 2022 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER

**BASIS OF ALLOTMENT** 

The Board of Directors of RSWM Limited wishes to thank all its members and investors for the overwhelming response to the Company's Rights Issue of Equity Shares, which opened for subscription on Friday, December 23, 2022 and closed on Friday, January 06, 2023 and the last date for market renunciation of Rights Entitlements was Monday,

January 02, 2023. Out of the total 10,595 Applications for 3,05,24,073 Equity Shares, 371 Applications for 1,26,601 Equity Shares were rejected due to technical reasons as

disclosed in "Terms of the Issue - Grounds for Technical Rejection" on page 198 of the LOF. The total number of valid applications received were 10,224 for 3,03,97,472 Equity Shares, which aggregates to 129.07% of the total number of Equity Shares allotted under the Issue. The basis of allotment finalized on Thursday, January 12, 2023 in

consultation with the Lead Manager, the Registrar to the Issue and BSE, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Company allotted 2,35,50,842 Rights Equity Shares

Less: Rejections/Partial Amount

Equity Shares | Amount (Rs.)\*

to the successful applicants on Friday, January 13, 2023. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. We hereby confirm that all the valid application

Exchanges, namely BSE Limited ("BSE"), National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

#### MGF दि मोटर एंड जनरल फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एमजीएफ हाऊस, 4/17-बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 फोनः 23272216-18, 23276872 फैक्स नं. 23274606 ईमेलः mgfltd@hotmail.com, वेबसाइटः http://www.mgfltd.com CIN No.: L74899DL1930PLC000208

सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015, वे विनियम 29 और 47 के अनुपालन में कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक **सोमवार**, 13 फरवरी, 2023 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एमजीएफ हाउस, 4 / 17 – बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 में आयोजित होगी. जिसमें दिसम्बर 31, 2022 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित अनअकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा।

ट्रेडिंग विंडो पहले ही 1 जनवरी, 2023 से अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घंटों तक बंद कर दी गई है और यह गुरुवार, 16 फरवरी, 2022 को फिर से खुलेगी। (दोनों दिन शामिल)

यह जानकारी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट और कंपनी की वेबसाइट www.mgfltd.com पर भी उपलब्ध है।

> बोर्ड के आदेशानसार दि मोटर एण्ड जनरल फाइनेंस लिमिटेड के लिए

> > ACS-2951

Ø

शाखा कार्यालयः 30/29, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008

**कब्जा सूचना** (अबल / बल सम्पत्ति के लिए) (परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें)

नबीक अधोहरताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनगंठन तथा प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहर

युको बैंक, ईस्ट पटेल नगर शाखा, नई दिल्ली का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं प्रतिभृत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 3] वे

साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदारों (1) श्रीमती अर्चना तनेजा और श्री संजव तनेजा, पता:-1 - फ्लैट

नंबर ए-2/14, पहली मॅजिल, हस्तल रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 पता:-2- 5/94, डीडीए फ्लैट, मदनगीर, अंबेडकर नगर , दिल्ली-

110062 गारंटर:- श्री डैजल कैसर, पता:- मकान नंबर 197, गली नंबर 9, डीडीए फ्लैट मदनगीर, नई दिल्ली-110062 को कथित सुचना की

प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर 28.09.2022 तक सूचना में उल्लिखित बकाया राशि रु. 18,15,042.40/- (रुपये अटारह लाख पन्द्रह हजार बयालीर

एवं चालीस पैसे मात्र) + ब्याज (31 मई, 2022 से) का पूनर्भृगतान करने के लिए कहते हुए 21.10.2022 को एक माँग सूचना निर्गत की थी

कर्जदार डारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण, एतडारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अघोहस्ताक्षर

ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे

विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को प्रतहारा सम्पत्ति के साथ कोई संख्यवहार न करने की चेनावनी दी जानी है और सम्पत्ति के साथ

किसी प्रकार का संव्यवहार 28.09.2022 तक सूचना में टल्लिखित बकाया राशि रु. 18,15,042.40/- (रुपये अटारह लाख पन्द्रह हजार बयालीस

एवं चालीस पैसे मात्र) + ब्याज (31 मई, 2022 से) और उस पर ब्याज के लिए युको बैंक, ईस्ट पटेल नगर शाखा, नई दिल्ली के प्रभार क

प्रतिभूत आस्तियों को विमोधित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की घारा 13 की उपधारा (8)

(अचल/चल) सम्पत्ति का विवरण

(भाग-I)

(कृषया सभी दृष्टिबंधक संपत्तियाँ, जैसे - स्टॉक सहित वर्तमान संपत्तियां, वही ऋण, प्राप्य, उपभोज्य स्टॉक और रयेयर और दस्तावेजों मे

(भाग- II)

ए-2/14, प्रथम तल, हस्तल रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में स्थित 113 वर्ग गज की संपत्ति का इक्विटेबल बंधक। स्वामित्व – श्रीमती

हस्ता. / -(एम. के. मदान) स्थानः नई दिल्ली उपाध्यक्ष, कंपनी सचिव, सीएफओ एवं अनुपालन अधिकारी

र्देक

यूको

वर्णित सम्पत्ति पर 13 जनवरी, 2023 को कब्जा कर लिया है।

उल्लिखित चल संयंत्र और मशीनरी इत्यादि का उल्लेख करें)।

के प्रावधानों की ओर आकष्ट किया जाता है।

अर्चना तनेजा पत्नी श्री संजय तनेजा।

तिथिः १३.०१.२०२३ स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 17 जनवरी, 2023

Book No.39281 k No. 7152 000184101 to 210000316582 210000316593 Book No.44271 Covernotes 210000463652 21270097652 Book No.5888 210000463671 t 210000463675 Book No.10566 ine iii No.7154 Covernotes 21000097340 21000097342 Book No.8100 CN383528 Book No.1945 ok No.7144 212700428450 Book No.46637 0000463738 on No.649778 Covernotes 210000353175 212700559101 Book No.649786 212700559102

विशेष रूप से ज्यारकर्ता और आम जनता को एतद्दारा आगाड़ किया जाता है कि उस्त संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेग-देन पंजाब नेशनल बैंक, सर्वेत शस्त्र केंद्र पूर्वी दिल्ली (पूर्व में एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांच के रूप में जाना जाता था) सीएससी, पींबोट-ई, मयूर विहार, फेज-प, दिल्ली-110091 को रु.36749764.92 (रुपए तीन करोड़ सरसठ लाख उन्हास हजार सात सी पींसट एवं बानबे पैसे मात्र) एवं उस पर जाने का ब्याज,व्यय और अन्य खर्च के प्रभार के अधीन होगा।

vernotes 2000353362 Sdi-Sushil Gautam Microsof (Mktg.)Ph.: 9611283798

UCO BANK

पुनर्भुगतान करने को कहा गया। । प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रचीम करते हुए 17 जनवरी, 2023 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा से लिया है। प्रतिभृति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप—धारा (a) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता/कंपकवर्ता/गारंटर का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

चुकि अधोहरताशरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुगर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के तहत **पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल** शस्त्र केंद्र पूर्वी दिल्ली (पूर्व में एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांच के रूप में जाना जाता था), सीएससी, पॉकेट-ई, मयूर विहार, फेज-11, दिल्ली-110091 कं अधिकृत अधिकारी होने के नाते, और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) निगम 2002 के नियम 3 के साथ पछित बारा 13 के तहत प्रदत्त शक्ति व प्रवेम करते हुए दिनांक 01.11.2022 को एक मांग गोटिस जारी किया जिसमें नैसर्स लक्ष्मी एजुकेशनल सोसाइटी (वधारकती), पता - एक्स-20 इंस्टीट्यूषानल एरिया, कढ़कड़बुमा, दिल्ली—110092 , श्री गीरज चंद्रा (क्रयक्ष) पताः एन—28 तीसरी मंजिल, चितरंजन पार्क दक्षिण दिल्ली, दिल्ली 110019 से मोटिस में उल्लिखित राशि रु.36749764.92 (रुपए तीन करोड़ सरसत लाख उन्चास हजार स्क्रा सी पौसठ एप बानवे पैसे मार्व) एवं आगे का ब्याज, व्यय और अन्य खर्च को उक्त गोटिस की तिथि से/ उक्त गोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के मीतर मीतर उक्त राशि क

देनांकः 17.01.2023 स्थानः पूर्वी दिल्ली इंडियन बैंक Indian Bank

गति का साम्यिक कंपक, जिसका क्षेत्रफल 4141.25 वर्ग मीटर है।

पजाब नैशनल बैक

अधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक पता- डीआरएम कार्यालय, उत्तरी रेलवे चेल्मफोडं रोड डीआरएम कार्यालय कर्नाट प्लेस

punjab national ban

the name you can BANK upon!

🐧 प्रभागमाद ALL AVILLED ई-मेलः d662@indianbank.co.in वितीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

अचल संपत्ति का विवरण

लक्ष्मी एजुकेशनल सोसाइटी के नाम पर एक्स –20, इंस्टीटबृशनल एरिया, कड़कड़डूमा, दिल्ली–110092 में स्थित भूमि और भवन सहित लीज

सर्कत शस्त्र केंद्र, पूर्वी दिल्ली, पींकेट-ई, मयूर विहार, फेज-॥ , दिल्ली-110091

ई-मेल: cs8075@pnb.co.in, फोन नंबर (कार्या): 011 22779758, 22785289

कब्जा-सूचना ।अचल संपत्ति के लिए।

की धारा 13(2) के अंतर्गत सुधना पंजी. डाक से 22.12.2022 को भेजी गई 2. प्रॉपाइंटर सह गारंटर 3. मार्टगैजर एवं गारंटर 4. मार्टगैजर एवं गारंटर प्रालिमी कौशल मैं. एनके शर्मा नंद किशोर शर्मा प्रमोद कीशल एच. नं. ३२, वैशाली, सेक. ४, एच. नं. ३२, वैशाली, सेक. ४ पताः जी-134, गाजीपुर, निवासीः जी-134, गाजीपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010 गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010 दिल्ली-110096 दिल्ली-110096 सम्पत्ति सं. 4/432, फलैंट में. 4, सम्पत्ति सं. 4/432, फलैंट में. 4, सेक. 4. वैज्ञाली, गाजिवाबाद, सेक. 4. वैज्ञाली, गाजिवाबाद, उत्तर प्रतेश-२०१०१० उत्तर प्रदेश-201010

विषय: इंद्रियन वैंक.. दीआरएम कार्यातय प्राखा- रेज. में ऋण खाता/ऐ: 50029942211 आपने 22.12.2022 से स्वीकृत दर पर पुनर्धुगतान की लिथि तक आगे के ब्यान के साथ रु. 8247432/- (बकाया राशि अर्थात् युक बैलेंस + एमऔआई

का उल्लेख करें) की राशि के पनर्भगतान में चक की है। बैंक ने 22.12.2022 को अधिनियम के अंतर्गत सचना जारी कर आपको रू. 8247432/- (22.12.2022 को) को बकाया राशि के भगतान का निर्देश दिया

उका सूचना \* पंजीकृत दरक से आपको भेजी गई जो अन्सर्व्य वापस लीट आई है। आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर रु. 8247432/- (22.12.2022 से भुगतान की तिथि तक ब्यान के साथ) की

राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर बैंक नीचे अनुसूची में दी वह प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध प्रतिभृति हित के प्रवर्तन के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये बाध्य होगा। यह युगना प्रतिभूत क्रेडीटर को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार/उपनार के प्रति पूर्वाग्रह-रहित है। "हम आपका ध्यान सरफैसी अधिनियम की धारा 13(8) तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रति आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं किसमें प्रतिभृतियाँ प

विमोचन के आपके अधिकार का उल्लेख किया गया है।" परिसम्पत्तियाँ जिसमें प्रतिभृति हित निर्मित है, का विवरण इस प्रकार है सम्पत्ति का विवरणः सम्पत्ति सं. 4/432, फ्लैट नं. 4, सेक. 4, पैशाली, गात्रियाबाद हाऱ्यीचेकेटेड परिसम्पत्तिवी तथा उसका विवरणः जी 134, गाजीपुर, दिल्ली-110096 में स्थित। निवि: 18.01.2023 प्राधिकृत अधिकार्र

स्थानः दिल्ली भादेश v, नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के निवम 20 के साथ पठित एनर्स एलटी नियमावली, 2016 के अंतर्गत स्थानापन्न सेवा के द्वारा सूचना राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली (पीठ-दो) में जीएसी शिपिंग (इंडिया)

2021, सी.पी. नं. 2019 के 2144 (पीबी) में

प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

अगरवाल कम्पनी, (आर-5) : प्लॉट नं. 211, आवरन मार्केट, सेक्टर 29डी, पंडींगड़-160029 'स्वदेशी न्युमिनियम क. प्रा. लि. (अहर-(6): 2845/5, जून भेडी, पहाड्रगंज, दिल्ली- 110055 ३. रॉयल कन्टेनर्स आर-7) : ई/14/बी-1, एकार्ट, मोहन को-ऑपरेटिय इंडस्टियल इस्टेट, नई दिल्ली-44 'वीर मेटल स्टोर आर-9): शॉप नं. 31, चौधरी कॉम्प्लेक्स, डाम राल्ली सेक. 12 ए, पंचकृता-15 जैस्ड कि, श्री सुभाष कुमार कुन्द्रा क्तैसिक बोटल केप्स प्रा. ति. के परिसमापक ने दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 66 के अंतर्गत आई. नं. 4382/2021 चलिल किया है तथा 'जैस्त कि माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली पीट ने कपर नामित अप सर्थ र्योधन पार्टियों को 07.10.2021 तथा 07.04.2022 को सुचना जारी किया था। कि, आदेश तिथि 16.12.202 के 'माध्यम से माननीय एनसीएलटी ने स्थानापन्न सेवा के माध्यम से आप एड्रेसी को सर्व करने के शिवे अधोत्रस्तावर्ग को अनगति दी है।

प्रा.लि. बनाम क्लैसिक बोटल कैप्स प्रा. लि. आई.ए. नं. 43.82 (एनडी)

ध्यान रहे कि उक्त श्रीमंत्रित विषय अब माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ-11 के समध 24.01.2023 को संपीयद्व किया जायेगा। आप व्यक्तिगत आध्या अपने अधिकत प्रतिनिधि के माध्यम से उसमें एपरिवत हो सकते हैं।

> मुजाय कुनार कुन ( IBBI/IPA-002/1P-N00399/2017-2018 /11174 क्लीशक बोटल कैया प्राइंबेट लिबिटेड के परित



CIN: L01111DL1993PLC052845 पंजी. कार्या.: 5190, लाहौरी गेट, दिल्ली - 110006 कॉर्पोरेट कार्यालयः सी-32, 5वीं और 6वीं मंजिल, सेक्टर 62, नोएडा-201301, यूपी फोन: 0120-4060300; ईमेलः investor@krblindia.com; वेबसाइटः www.krblrice.com

कें आरबीएल लिमिटेड के सभी इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ सार्वजनिक सूचना

वित वर्ष 2015-18 के संबंध में अप्रदत्त अंतरिम लामांश तथा ऐसे इविवटी शेयर जिनका वित्त वर्ष 2015-16 से निरंतर सात वर्षों से लाभांश अप्रदत्त / अदावाकृत है उन्हें निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आईईपीएफ) उचन्त खाते में अंतरित करना

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की घारा 124 के साथ पठित आईईपीएप प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, जंतरण एवं वापिसी) नियम, 2016 ("नियम") समय-समय पर यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुसरण में, प्रत्येक कंपनी को अनिवाय रूप से उस अप्रदत्त लाभांश खाते की राशि को आईईपीएफ में अंतरित करना है जिन पर ऐसे खाते के अंतरित करने की तिथि से 7 (सात) वर्षों की अवधि के लिए लागांश

अप्रदत्त या अदावाकृत हो। इस सूचना के माध्यम से हम सूचित करते हैं कि कथित प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 10 मार्च, 2016 को कंपनी द्वारा घोषित किया गया लामांश जो सात वर्षों की अवधि से अदावाकत /अप्रदत्त हे, उसे **16 अप्रैल, 2023** को आईईपीएफ के पास जमा किया जाएगा। तद्नुसार, संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि कृपया ध्यान दें और आईआईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में इसके हस्तांतरण सं बचने के लिए अप्रदत्त लामांश हेतु 15 **मार्च 2023** से पहले दावा करें। कंपनी द्वारा संबंधित शेयरधारकों को अपने पंजीकृत सम्पर्क पते / मेल आईडी पर इस संबंध में एक

सूचना पहले ही मेजी जा चुकी है। इ**स सचना के माध्यम से** इम उन शेवरधारकों को विशेष रूप से सचित करना चाइत हैं जिनका अंतरिम लाभांश वितीय वर्ष 2015–16 से निरंतर 7 (सात) वर्षों से अप्रदत्त या अदावाकृत है। कृपया नोट करें कि ऐसे शेवर जिन पर निरंतर सात वर्षों से लागांश लिए कोई दावा नहीं किया गया है/अप्रदत्त है, उन्हें भी नियमों के अनुसार आईईपीएफ को अंतरित किया जाएगा। एक बार ऐसे शेयर आईईपीएफ को अंतरित करने पर इन शेयरों पर उपार्जित सभी लाम जैसे लामांश, बोनस शेयर, रिपलिट, कंसोलिडेशन आदि के सभी फायदे भी समाप्त हो जाएंगे जैसा कि ये शेयर भी आईईपीएफ को अंतरित किये जाएंगे।

ऐसे शेवरपारकों की पूरी सूची जिन्होंने निरंतर सात वर्षों से (अब तक) अपने लागांश का भुगतान / दावा नहीं लिया है और जिनके शेयर जाईईपीएफ उबन्त खाते में अंतरित किये जाने हेतु योग्य है, उसे कंपनी की वेबसाइट www.krbirica.com पर वेबलिंव https://krbirice.com/investor-relation/ के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। आईईपीएफ चचन्त खाते में उनके जमा करने से पहले शेवरों का दावा करने के लिए उचित कार्यवाही हेत् सबंधित शेयरधारक, जिनके शेयर आईईपीएफ उचना खाते में अंतरण के लिए योग्य है, कंपनी द्वारा इस संबंध में आवश्यक पत्राचार पहले ही किया ज चुका है।

संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर मौतिक प्रारूप में धारित है और आईईपीएफ उचन्त खाते को अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ चयन्त खाते को शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्रों के बदले बुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और ऐसे शेयरों के जारी होने पर कंपनी बुप्लीकेंट शेयर प्रमाणपत्रों को डिमेट प्रारूप में बदलने और आईईपीएफ के पक्ष में अंतरण के लिए कॉपॉरिट कार्यकलाप के माध्यम से डिपॉजिटरी को सचित करेगी। मूल शेयर प्रमाणपत्र जो मूल शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत है, बाद में स्वत ही निरस्त हो जाएंगे और गैर-विनिमेय माने जाएंगे।

संबंधित शेयरधारक जिनके शेवर ढिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में है, कृपया नोट करें वि कंपनी आईईपीएफ के डिमेट खाते में शेयरों के जंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यकलाप के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि अदावाकृत लाभांश एवं शेयर एक बार आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के बाद फार्म आईईपीएफ-5 (आईईपीएफ वेबसाइट itp://www.iepf.gov.in को देखें) को ऑनलाइन जमा करके तथा सत्यापन के लिए कंपनी के पास सहायक दस्तावेजों के साथ इसकी भौतिक प्रति जमा करके निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण से इसे वापस पाने का दावा किय जा सकता है। यदि कंपनी को 15 मार्च, 2023 तक संबंधित शेयरधारकों से कोई पत्राचार प्राप्त नहीं

होता है तो उसके बाद आपके अनुरोध को प्रक्रियागत करना कंपनी के लिए असुविधाजनक होगा और कंपनी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालने करते हुए शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के पास डिमेटियरलाइज्ड एवं अंतरित कर देगी। इस संबंध में किसी भी जानकारी / स्पष्टीकरण के लिए संबंधित शेयरधारक कंपनी को ई—मेलः investon@krblindia.com पर 'शिख सकते हैं या 0120—4060300 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं या कंपनी के रजिस्टार एवं शेयर टांसफर एजेंट-अलंकित एसाइनगेंट्स लिमिटेंड, 4ई/2, इांडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, फोन: 011-

425412340 ई-मेलः info@alankit.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

स्थानः नोएडा, उत्तर प्रदेश

दिनांकः 17 जनवरी 2023

कृते केआरबीएल लिमिटेड हस्ता/ ज्योति वर्मा कंपनी सचिव एवं नोडल अधिकारी एम एफ एल

वात्रकार किए भा सकते हैं।

NE fra 0021 (222, 2030)

#### नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (भारत सरकार को उपक्रम) ए-11, सेक्टर-24, गौएडा-201301 G2🚾

संदर्भ सं. 07-2022-23-डीएपी-04ईंडब्ल्य

दिनांक 18.01.2023

(स्थानक सहस्रक) (स्थानक सहस्रक)

इंडियन येक

एवं 08-2022-23-एनपीएस-एनपीके-04ईंडब्ल्यू

कार्मिक प्रशिक्षण केंद्र, बी-31, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर- 62, नोएडा

Staff Training Centre, B-31, Institutional Area,

Sector 62, Nolda (UP)-201309

Phone No. +911202975826, Email- stc\_noida @pnb.co.in

कैटरिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु निविदा सूचना

प्रमान विभाग केंग्न, स्टब्स ट्रेडिंग करत, की 21, इस्टीक्शुलास प्रतिका, केंग्नर ६८, केंग्रम (पूर्व) - 2012क केंद्रित कराई इंट्रम करों के लिए स्वामान दक्तान करों, बेटारी और लंदनी के ईसीविंग्डर) अवस्थित करता है।

cast date for submission of Technical and Commercial this settine (Hash Sastriction)

मेंक न्यूराम प्रकार) विश्व को महिकार काने के लिए बाना रहीं है और इस निरूपण के नावन में प्रसूत किया गए कियी की

त्व करी प्रकार को बिन कोई कारत बारार स्वीकार वा आवीकार करने का अधिकार सुरक्षित राजन हैं।

\$ 1970 person for \$2 should be been broken to be been a finite.

Date of initiating of bidding process. 19,01,2323,1403 wè有 Last date for downloading the render document \$6.00 2023 (\$55 will as

सार्वभौमिक ई-निविदा आमंत्रण सूचना नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार सूज बल्क फर्टिलाइजर्स की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती है निविदा जुमा उत्पाद माञा ਰਵ (एमटी में) अंतिम तिथि एनपीएस (20:20:0:13) 50,000 ईसीआई 01.02.2023

ई-निविदा एनपीके (10:26:26) | 50,000 | ईसीआई 14.00 बजे तक एनपीके (12:32:16) 50,000 सब्ल्यूसीआई डीएपी (18:46:0) 50,000 ईसीआई Tet 141957 1 डीएपी (18:46:0) 50,000 डब्ल्यूसीआई 14.00 बजे तक विवरणों के लिए वेबसाइट www.nationalfertilizers.com य https:// etenders.gov.in/eprocure/app देखें । तो उसे कंबल उपरोक्त केस्साइटों पर प्रकाशित किया जाएगा । कार्यकारी निदेशक (विपणन

MFL\_Kisan / @nationalfertilizers in National Fertilizers Limited

#### अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उदघोषणा

(घारा 82 Cr.P.C. देखिए )

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **योगेश पुत्र श्री चन्दर पाल** निवासी म. नं. ई-1/17, बुद्ध विहार, फेस-1, दिल्ली ने केस ई-एफआईआर नं. 34251/19 अन्तर्गत घारा 379/411 आईपीसी एक्ट, थाना विजय विहार, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **योगेश** मिल नहीं रहा है, और मुझे सामाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **योगेश** फरार हो गया हैं (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा हैं) इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि केस ई-एफआईआर नं. 34251/19 अन्तर्गत घारा 379/411 आईपीसी एक्ट, थाना विजय विहार, दिल्ली के उक्त अभियुक्त योगेश से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 25.02.2023 को या उससे पहले हाजिर हों।

DP/547/RD/2023 (Court Matter)

श्री नवदीप गुप्ता एम.एम. (नोर्थ वेस्ट), कमरा नं. 109 रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

सार्वजनिक उद्घोषणा नारतीय विवासा और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैशिवक समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2017 के विनियम 14 के अंतर्गत]

एबी सोया प्राईवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ एकी सोया प्राईवेट लिमिटेड 26.09.2012 पंजिस्ट्रस्य ऑस कंपनीजा दिल्ली प्राधिकरण जिसके क्यीन कॉर्पोरेट व्यक्ति कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देवता U15122DL2012PTC242782 पहचान कॉर्पोरेट व्यक्ति की संख्य पंजीकत कार्यालय का पता और कॉपरिट डाऊश नं. व यूशरा पलोर चंदर लोक, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 कॉपॉरेट व्यक्ति के संबंध में दिवाल 17.01.2023 प्रारंग तिथि दीपक गुप्ता परिसमाधक का नाम पता ई-मेल पता और 607, छटा फ्लोर, रतन ज्योति बिल्डिंग, राजेंद्र प्लेस

टेलीफोन नंबर पंजीकरण संख्या नर्द विल्ली-110008 इं-मेल आई की : deepsk@drassociates.org संपर्क विवरम । 011-45063990, 4777505 पंजीकरण संग्रमा : IBBNPA-001/IP-P02561/2021-22/13875 16.02.2023 लचुड़ारा सूचित किया जाता है कि **एवी सोवा प्राईवेट लिमिटेड** ने 1**7 जनवरी. 2023** क

विचित्रक परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। एबी सोया प्राईवेट लिमिटेड के सभी हितधारको को उपरोक्त मद सं. 7 में वर्णित कार्यालय पते पर जप-वों के प्रमाण परिसमापक से पास **16 फरवरी, 2023,** तक या उससे पूर्व जमा करने के लिए आनंत्रित

वितीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक पहति से अपने दावे के प्रमाग मेजेंगे जन्य समी हितपारक व्यक्तिगत, श हारा व इलेक्ट्रानिक पहिती से अपने दावे के प्रमाण भेज सकते है। दावाँ के झूठे वा मिथ्या प्रमाण जमा करने पर दण्डित किया जायेगा।

दिनांक : 17 जनवरी, 2023 ल्यान : नई दिल्ली निविवदेटर ऑफ एबी सोया प्राईवेट निमिटे पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P02561/2021-22/13875

2.08.41.516

288,969

Nos.

DETAILS. PLEASE REFER TO THE SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 190 OF THE LETTER OF OFFER.

1. The break-up of application received and rejected from the Shareholders and the Renouncees is as under:

**Gross Applications** 

9.858

356

Equity Shares | Amount (Rs.)

Category	No. o Applicat	SS 17757700000	r of Rights Equity Sh against Entitlemen		Number	of Rights Equity Sha against Entitlement			s Equity Shares ed (A+B)
*Amount include 2. Summary of		ejected cases. rious categories	is as under:						
Total	10,595	3,05,24,073	305,24,07,300	371	126,601	1,26,60,100	10,224	3,03,97,472	303,97,47,200
Renounces	356	478,089	4,78,08,900		*	-	356	478,089	4,78,08,900
Shareholders	10,239	3,00,45,984	300,45,98,400	371	126,601	1,26,60,100	9,868	2,99,19,383	299,19,38,300

Total 10.224 2,11,30,485 24.20.357 2,35,50,842 Intimations for Allotment/refund/rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the investors has been completed on January 17, 2023. The instructions to SCS8s for unblocking funds in case of ASBA Applications were given on January 12, 2023. The Listing application was filled with BSE and NSE on January 13, 2023 and subsequently the listing approvals were received on January 16, 2023 from BSE and NSE. The credit of Rights Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of allottees was completed on January 17, 2023 by NSDL and CSDL respectively. The trading in the Rights Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on BSF and NSF upon receipt of trading permission. The trading is expected to commence on or about January 20, 2023 Further, in accordance with SEBI circular bearing reference - SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020 the request for extinguishment of Rights

Entitlements will be sent to NSDL & CDSL on or about January 18, 2023 INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the submission of the Letter of Offer to SEBI should not in any way deemed or construed that the LOF has been cleared or approved by SEBI. The investors are advised to refer to the LOF for the full text as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures -Disclaimer Clause of SEBI\* on page 184 of the LOF

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not, in any way, be deemed or construed that the LOF has been cleared or approved by the BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the LOF. The investors are advised to refer to the LDF for the full text of the Disclaimer clause of BSE as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclasures - Disclaimer Clause of BSE" on page 187 of the LDF. DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not, in anyway, be deemed or construed that the LOF has been cleared or approved by NSE; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the LDF. The Investors are advised to refer to the LDF for the full text of the

Disclaimer Clause of NSE as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of NSE" on page 187 of the LOF COMPANY SECRETARY AND **LEAD MANAGER TO THE ISSUE** REGISTRAR TO THE ISSUE

SECURITIES LTD

SKP SECURITIES LTD

1702-03, BioWonder, 789 Anandapur, E M Bypass, Kolkata - 700 107, West Bengal, India Tel No.: +91 33 6677 7000 Email: contact@skpsecurities.com Website: www.skpsecurities.com Investor Grievance Email: grievance.cell@skpsecurities.com Contact Person: Anup Kumar Sharma

SEBI Registration No. INM000012670

Validity of Registration: Permanent

KFINTECH

KFIN TECHNOLOGIES LIMITED

(Formerly known as KFin Technologies Private Limited) Selenium, Tower B, Plot No. 31 and 32, Financial District Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi 500 032 Telangana, India Telephone: +91 40 6716 2222 / 1800 309 4001 E-mail: rswm.rights@kfintech.com

Investor grievance Email: Einward.ris@kfintech.com Website: www.kfintech.com Contact person: Murali Krishna M SEBI Registration No: INR000000221 Validity of Registration: Permanent

COMPLIANCE OFFICER SURENDER GUPTA

**Valid Applications** 

Equity Shares | Amount (Rs.)

2.32.61.873

2,88,969

Nos.

24.20.357

Bhilwara Towers, A-12, Sector - 1, Noida - 201 301, Uttar Pradesh, India Telephone: +91 120 439 00000

E-mail: rswm.investors@Injbhilwara.com Website: www.rswm.in

Investors may contact the Registrar to Issue / Company Secretary in case of any Pre Issue/ Post Issue related problems such as non-receipt of Allotment advice/demat credit etc.

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre issue or post issue related matter. All grievances relating the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs giving full details such as name, address of the applicant, contact number(s), e- mail address of the sole / first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked ASBA Account number, and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper applications as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip. For

further details on the ASBA process, please refer to the section titled "Terms of the Issue - Making of an Application through the ASBA process" on page 192 of the LOF. THE LEVEL OF SUBSCRPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF

Place: Noida Date: January 17, 2023

THE COMPANY.

SURENDER GUPTA Company Secretary & Compliance Officer

For RSWM LIMITED

Disclaimer: Our Company has filed a Letter of Offer with the Securities and Exchange Board of India and Stock Exchanges. The Letter of Offer is available on the website or SERI at www.sehi.gov.in. the websites of the Stock Exchanges where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com, and the ie of the Lead Manager at www.skpsecurities.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer ti the LOF including the section "Risk Factors" beginning on page 16 of the LOF. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States unless registered under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.











-देवीलाल साह्

## काछोला सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित

न्यूज सर्विस नवज्योति, मांडलगढ़

जिले के काछोला ग्राम पंचायत के सरपंच प्रहलाद नट के खिलाफ मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव जारी हो गया है। ग्राम पंचायत के 14 वार्ड पंचों में से 12 वार्ड पंचों ने सरपंच के खिलाफ वोटिंग की है। निर्वाचन अधिकारी ने सरपंच प्रहलाद नट के अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी है। अब सरपंच नट को पद से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस दौरान कस्बा पूरी तरह से बंद रहा और पुलिस जाप्ता तैनात रहा। मांडलगढ़ एसडीएम जय कुमार कौशिक ने बताया कि पिछले कई दिनों से ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों की ओर से सरपंच नट के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था। सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सभी वार्ड पंचों ने कलेक्टर व जिला परिषद सीईओ के सामने पेश हुए थे। मंगलवार को सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग करवाई गई।जिसमें 12 वोट सरपंच के खिलाफ पड़े है। यह सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है।

## वीडीओ से मारपीट के बाद शुरू हुआ था विवाद

बंद रहा बाजार

अविश्वास प्रस्ताव होने की

सूचना के चलते करबे का

बाजार मंगलवार को पूरा

बंद रहा। वहीं काफी संख्या

में लोग ग्राम पंचायत के

बाहर ही इकट्ठा रहे।

सरपंच के खिलाफ

30 दिसंबर को काछोला ग्राम पंचायत के वीडीओ नरेंद्र मिश्रा के साथ सरपंच प्रहलाद नट ने मारपीट कर दी थी। वीडीओ ने गांव में हो रहे अतिक्रमण व अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई की थी। इसी को लेकर सरपंच ने उनके साथ मारपीट कर दी। इस घटना को लेकर वीडीओ ने थाने में रिपोर्ट भी दी थी। लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था। इसके बाद कर्मचारियों ने थाने के सामने विरोध जताने पर सरपंच के

खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वीडीओ के साथ हुई मारपीट के बाद काफी संख्या में ग्रामीण व वार्डपंच सरपंच के खिलाफ उत्तर गए थे। और पिछले 16 दिनों से सरपंच को हटाने के लिए करने में विरोध प्रदर्शन चल रहा था।

## पूर्व विधायक धाकड़ का जन्मदिन आज

बिजोलियां। मांडलगढ़ के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ के जन्मदिन पर बुधवार को बिजोलियां उपखण्ड क्षेत्र में संवाद कार्यक्रम, रक्तदान शिविर के साथ ही अन्य कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान दोपहर 12 बजे आरोली टोल प्लाजा से उन्हें बिजोलियां पंचायत समिति कार्यालय तक मोटरसाइकिल रैली द्वारा ले जाया जाएगा। जहां संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिसमें युवा केरियर कौंसिल, सामाजिक, धार्मिक एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद धाकड़ लक्ष्मी खेड़ा ग्राम पंचायत कार्यकताओं द्वारा उनके जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर में भाग लेंगे,फिर उनके जन्म भृमि माजी साहब का खेड़ा के राजकीय सीनियर सेकंडरी स्कल में डी एफ टी फंड से निर्मित कक्षा कक्षों का लोकार्पण करेंगे तथा चांद जी की खेड़ी में कृष्णा मार्केट का उद्घाटन किया जाएगा।

# सुरक्षा सुनिश्चित करने का लिया संकल्प

सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान किया आमजन को जागरूक

न्यूज सर्विस/नवज्योति, मुलाबपुरा 34वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर हिंदुस्तान जिंक ने कार्यस्थल, घर और सड़क सभी स्थिति में सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प

हिंदुस्तान जिंक की सभी परिचालन

इकाइयों में इस सप्ताह की थीम सेव योरसेल्फ ट् सेव योर फैमिली के तहत सड़क सुरक्ष सप्ताह आयोजित किया गया। कंपनी ने कर्मचारियों, व्यापार भागीदारों और समदाय को सड़क सुरक्षा नियमों के महत्व के बारे में जागरूक किया। हिंदुस्तान जिंक के मुख्यकार्यकारी अधिकारी अरुण मिश्रा ने कहा कि सुरक्षा हमारा मूल सिद्धांत है क्योंकि हम जीरो हार्म के लक्ष्य की दिशा में लगातार कार्यरत हैं। सड़क सुरक्षा के लिए यदि उचित सुरक्षा कदम उठाएं जाएं तो अधिकांश दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यातायात नियमों के महत्व को दोहराना है। मैं सभी से सुरक्षा नियमों का पालन करने का आग्रह करता हूं क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। सप्ताह के दौरान रोको-टोको अभियान, सप्ताह के सुरक्षित



गुलाबपुरा। हिंदुस्तान जिंक रामपुरा आगुचा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत शपथ दिलाते।

चालक की पहचान, ट्रेफिक मार्शल, सुरक्षा प्रश्नोत्तरी, सड़क जागरूकता सत्र, पोस्टर प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, डाइंग प्रतियोगिता, वीडियो प्रतियोगिता और पीयुसी शिविर जैसी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईँ।विभिन्न प्रकार के अभियान सड़क दुर्घटनाओं के कारणों और उन्हें रोकने के उपायों को लेकर जागरूकता सत्र के माध्यम से आमजन को जोड़ा गया। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम करने हेतु जागरूक करने के लिए हिन्दस्तान जिंक ने अपने परिचालन क्षेत्र के

आस पास में समुदाय को जागरूक किया गया। उन्हें सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी देमें हुए हमेशा क्रैश हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट बांधने, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने, गति सीमा से अधिक नहीं चलने और, टैफिक लाइट के नियमों के पालन करने की जानकारी दी गयी। वेदांता समूह की कंपनी और देश की सबसे बड़ी और एकमात्र जस्ता, सीसा और चांदी उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक द्वारा 6000 से अधिक लोगों को इस सप्ताह के दौरान जागरूक किया गया।

# शर्मा अध्यक्ष व भाटी बने उपाध्यक्ष

शाहपुरा अभिभाषक संस्था के चुनाव सम्पन्न

न्युज सर्विस/नवज्योति, शाहपुरा अभिभाषक संस्था शाहपुरा के चुनाव मंगलवार को सम्पन्न हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र

व्यास व सहायक निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा व गणपत बंजारा ने व्यास ने बताया कि अभिभाषक संस्था शाहपुरा की सन 2023 की कार्यकारिणीं के चुनाव अभिभाषक संस्था कक्ष में हुए। मतदान में कुल 73 मतों में से 70 मतदाताओं ने मतदान किया साथ ही इनमें से दो

मत खारिज हुए वैद्य मतों में से अध्यक्ष पद हेतु कैलाश चंद्र सुवालका को 29 मत व सुनील शर्मा को 39 मत प्राप्त हुए। सुनील कुमार शर्मा को 10 मतो के अंतर से अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित घोषित किया गया। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद हेतु लालाराम गुर्जर को 21 मत व योगेंद्र सिंह भाटी को 47 मत प्राप्त हुए। 26 मतों के अंतर

हमांक : अन्वअ/लेखा/2023/236

**Bupply of** 

une Dia

asting Mad

LED. Light Panel Unit

& Packing Unit

ining 3D Front

wire making unit

Egg Trip

引起

8.25 ਜਦ

10 AU 1979

तस

連せ

हे नम अहित कर मिनेय सुतने वी दिनक से पूर्व झीन करना अन्तियं है।

प्रभावशाला

15,500/

1,000/-



शाहपुरा। अभिभाषक संस्था की नवनियुक्त कार्यकारणी का अभिनन्दन करते अधिवक्ता।

से उपाध्यक्ष पद हेतु योगेंद्र सिंह भाटी को निर्वाचित घोषित किया गया। सचिव पद हेतु वीरेंद्र पत्रिया, कोषाध्यक्ष पद हेतु आशीष भारद्वाज, पुस्तकालय अध्यक्ष हेत् किशन लाल खटीक, प्रेस प्रवक्ता हेत् राहल पारीक को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। चुनाव परिणाम घोषित होते ही विजेताओं को सभी अधिवक्ताओं द्वारा माला पहना मिठाई खिलाकर बधाई दी। निर्वाचन कार्यक्रम शांतिपर्वक संपन्न कराए जाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष

दि. 12.01,2023

वृह्य समय

02.00

02.2029

P.M.

02.00

P.M.

B.02.2028 P.M.

DNA-271874

01,202

तमद

02.00

2.02.252

P.M.

02.00

P.M.

अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

(राजस्थान सरकार का स्थागकासी संस्थान

नारेली तीर्थ के पास, वड़तिया चौराहा, अजमेर

ई-निविदा सूचना

महाविद्यालय में वितीय वर्ष 2022-23 के जिए निम्न विदल्लानुसार मेशीनों की संख्यई हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है

\$-180

1000/-

तेल एवं टेबलेट

जोड़ों एवं मांसपेशियों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर

दर्द, सिर दर्द, जकड़न, मोच, खिचाव, सूजन, पुरानी

चोट का दर्द, गर्दन का अकड़ना, पिण्डलियों का दर्द,

कंधों का दर्द, एड़ी का दर्द, कलाई का दर्द, नसों से

संबन्धित तकलीफों में, ठंड के कारण होने वाले दर्द,

पुराने दर्दों में भी उपयोगी। नोटः जनसाधारण के लाभ के

लिए जानकारी दी जा रही है। जोड़ो के दर्द में आराम पायें

सभी मेडीकल एवं आयुर्वेदिक स्टोर्स पर उपलब्ध <sub>॥10 No. UK-Ad 43/2021</sub>

अनुसारित अधानत निविद्य हुन्छ निविद्य स्पष्ट ई निविद्य स्पीत है निविद्य मृत्य तीरा इथा वर्ष अपनीड करने की अन्तिम खीलने

को सिमि व ई-प्रीक्तूरमेंट सं

13.01.2023

18.01.202

023 GECAJ

22 GECA

2023 GECAL

314610-1

923 GECAL

314619-1

रूप से मिले सहयोग के लिए सभी का निर्वाचन विभाग की ओर से आभार व्यक्त किया गया।अंत में सभी को निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कन्हैया लाल धाकड़, अनिल शर्मा, दुगालील राजौरा, पूर्व अध्यक्ष रामप्रसाद जाट, शरीफ मोहम्मद, चावण्ड सिंह शक्तावत, दीपक पारीक, ऑकत शर्मा, विष्णु शर्मा सहित अन्य अधिवक्ता मीजुद थे।

#### संविदा चिकित्सा कर्मियों ने साइकिल यात्रा का किया स्वागत

न्युज सर्विस/नवज्योति, गुलाबपुरा लिए कड़ाके की ठंड में साइकिल मार्ग से डूंगरगढ़ से प्रस्थान कर यात्रा करते हुए खेरवाड़ा उदयपुर मेंनार से मंगलवाड़ वित्तौड़गढ़ से

## संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के बैनर तले संविदा सेवा नियम 2022 के तहत अनुभव को

जोड़कर स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमितीकरण की मांग को पूर्ण कराने का संदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचाने के गंगरार भीलवाड़ा भीलवाड़ा से गुलाबपुरा पहुंची। श्री जीवन दीपक दांतोनिया परामर्शदाता निवासी डूंगरपुर का संयुक्त संविदा मोर्चा जुलाबपुरा भीलवाड़ा के एनआरएचएम यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष श्रीचंद्रशेखर शर्मा, डॉक्टर राकेश कुमावत, महावीर प्रसाद खटीक, कुंज बिहारी गुप्ता, राकेश पारीक, विजय पवार एवं एनएचएम साथियों ने स्वागत किया।



गुलाबपुरा। हुरड़ा में वॉलिटियर्स प्रशिक्षण को संबोधित करते संदर्भ व्यक्ति

# हुरड़ा में वॉलिटियसे

निवेद प्राप्त एक जन जनवारी वेदसहर www.neapnar.uc.in. www.npric.anjactum.gov. in नवे seppe का देवी द राजवारी र तो ज सकते हैं। निवेद अमानन रागि, प्राप्त एन्टा का है औरतिंग सुन्त का ही ही, प्रचर्त, तडकीय ऑगडीवारी महतिवास, असमें न्यूज सर्विस/नवज्योति, गुलाबपुरा

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बावलो का खेडा (हरडा) में वॉलिंटियर्स प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। जिसका शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित करके किया गया। प्रधानाध्यापक कैलाश व्यास एवं गोपाललाल भांबी ने सभी उपस्थित अतिथियों का माल्यार्पण एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर अतिथि पुर्व बीआरसीएफ वीरेंद्रसिंह गहलोत, मिश्रीलाल खाती उपसरपंच, मिश्रीलाल बलाई पंचायत समिति सदस्य, एसएमसी अध्यक्ष ताराचंद गुर्जर उपस्थित थे। संदर्भ व्यक्ति सत्येंद्र गर्ग ने वॉलिंटियर्स के

कार्य समुदाय की विद्यालय में सहभागिता एवं बालिका शिक्षा में वॉलिंटियर्स की भूमिका के बारे में

वीरेंद्र सिंह गहलोत ने प्रशिक्षण के उद्देश्य, सार्थकता एवं महत्व के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर वॉलिंटियर्स रामजस गुजेर, ओमप्रकाश तेली, कन्हैयालाल तेली, शिवराज गुर्जर आदि उपस्थित रहे। संदर्भ व्यक्ति एवं प्रधानाध्यापक सत्येंद्र गर्ग ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी वॉलिंटियर्स ने भाग लिया। प्रधानाध्यापक कैलाश व्यास ने उपस्थित अतिथियों एवं संभागीयो का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया।



बीगोद। होडा से मुडला हनुमान तक सङ्क शिलान्यास करते विधायक, -प्रमोद कुमार गर्ग भाजपा कार्यकर्ता।

#### एक करोड़ 75 लाख के सड़क कार्य का किया शिलान्यास

बीगोद। मंगलवार को क्षेत्रीय विधायक गोपाल खंडेलवाल ने पैतुक गांव होडा में 1 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत की डी.एम.एफ.टी. से स्वीकृत होडा से मुंडला हनुमान मोंदर तक सड़क कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हरिलाल जाट, वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व सरपंच रामसिंह जोशी, शक्तिसिंह जोशी, जयसिंह जोशी, सरपंच जितेंद्र नायक, जगदीश खंडेलवाल, जीएसएस अध्यक्ष होडा रामेश्वर खंडेलवाल, पूर्व सरपंच दुर्गादेवी शर्मा, उपसरपंच हेमंत जोशी, कैलाश जोशी, गोपाल खंडेलवाल, बालिकशन जोशी, सूर्यप्रकाश जोशी, हरिओम तेली, रतन तेली, कैलाश तेली, देवीलाल प्रजापत, कान्हा गुर्जर सहित ग्राम पंचायत होडा के वार्डपंच सहित सम्मानित ग्रामवासी व सार्वजनिक निर्माण विभाग मांडलगढ़ के सहायक व कनिष्ठ अभियंतागण उपस्थित थे।

**गुलाबपुरा** । समाजसेवी अशोक श्रीश्रीमाल जयपुर के सहयोग से भारतीय जैन संघटना बिजयनगर के माध्यम से जरुरतमंदों को कड़ाके की सर्दी से बचाव के लिए स्वेटर ग्राम शिवपुरा माध्यमिक विद्यालय एवं ग्राम गोपालपुरा मीडिल स्कूल, ग्राम पंचायत टॉकरवाड तहसील हुरड़ा में वितरित किए। गोपालपुरा गांव के विद्यालय में 140 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। भारतीय जैन संघटना परिवार ने विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाने का भी स्कूल प्रबंधन को आश्वासन दिया। कार्यक्रम में भारतीय जैन संघटना के अध्यक्ष संपत कांठेड़, दिलीप कुमार तलेसरा, टी.सी. जैन, अरविंद लोढ़ा, अरिहंत बंब बरल, मोतीलाल लोढ़ा एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे।

This is an advertisement for information purposes only and not for publication or distribution outside India and is not an offer document announcement. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated December 13, 2022 (the "Letter of Offer" or "LDF") filed with the Stock

## RSWM Limited

under the Companies Act, 1956 and a certificate of incorporation was granted to our Company by the Registrar of Companies, West Bengal at Calcutta. Our Company received the Certificate of commencement of Business from the Registrar of Companies, West Bengal at Calcutta on December 29, 1960. Subsequently, the name of our company was changed to "RSWM Limited" pursuant to which a fresh certificate of incorporation was granted on July 31, 2006 by the Registrar of companies, Rajasthan at Jaipur ("ROC"). For further details in relation to changes in the registered office of our company, see "General Information" on page 37 of the Letter of Offer ("LOF").

Registered Office: Kharigram, P.O Gulabpura - 311 021, Bhilwara, Rajasthan; Corporate Office: Bhilwara Towers, A-12, Sector - 1, Noida - 201 301, Uttar Pradesh, India Contact Person: Surender Gupta, Company Secretary and Compliance Officer; Telephone: +91 120 439 00000; E-mail: rswm.investors@injbhilwara.com Website: www.rswm.in; Corporate Identification Number: L17115PJ1960PLC008216

PROMOTERS OF OUR COMPANY: LAKSHMI NIWAS JHUNJHUNWALA AND RAVI JHUNJHUNWALA ISSUE OF UP TO 2,35,50,842 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH OF OUR COMPANY ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 100 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 90 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 23,550.84 LAKHS\* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 (ONE) EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, THAT IS, ON DECEMBER 16, 2022 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 190 OF THE LETTER OF OFFER.

#### **BASIS OF ALLOTMENT**

The Board of Directors of RSWM Limited wishes to thank all its members and investors for the overwhelming response to the Company's Rights Issue of Equity Shares, which opened for subscription on Friday, December 23, 2022 and closed on Friday, January 06, 2023 and the last date for market renunciation of Rights Entitlements was Monday January 02, 2023. Out of the total 10,595 Applications for 3,05,24,073 Equity Shares, 371 Applications for 1,26,601 Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in "Terms of the Issue - Grounds for Technical Rejection" on page 198 of the LOF. The total number of valid applications received were 10,224 for 3,03,97,472 Equity Shares, which aggregates to 129.07% of the total number of Equity Shares allotted under the Issue. The basis of allotment finalized on Thursday, January 12, 2023 in consultation with the Lead Manager, the Registrar to the Issue and BSE, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Company allotted 2,35,50,842 Rights Equity Shares to the successful applicants on Friday, January 13, 2023. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. We hereby confirm that all the valid applications

The break-up of application received and rejected from the Shareholders and the Renouncees is as under

Category Gross Applications		ons	Less	: Rejections/Parti	al Amount	Valid Applications		
Nos.	Equity Shares	Amount (Rs.)	Nos.	Equity Shares	Amount (Rs.)*	Nos.	Equity Shares	Amount (Rs.)
10,239	3,00,45,984	300,45,98,400	371	126,601	1,26,60,100	9,868	2,99,19,383	299,19,38,300
356	478,089	4,78,08,900			-	356	478,089	4,78,08,900
10,595	3,05,24,073	305,24,07,300	371	126,601	1,26,60,100	10,224	3,03,97,472	303,97,47,200
	10,239 356	Nos. Equity Shares 10,239 3,00,45,984 356 478,089	Nos. Equity Shares Amount (Rs.)   10,239 3.00.45,984 300.45,98.400   356 478,089 4,78,08,900	Nos. Equity Shares Amount (Rs.) Nos.   10,239 3.00.45,984 300.45,98.400 371   356 478,089 4,78,08,900 -	Nos. Equity Shares Amount (Rs.) Nos. Equity Shares   10,239 3,00,45,984 300,45,98,400 371 126,601   356 478,089 4,78,08,900 - -	Nos. Equity Shares Amount (Rs.) Nos. Equity Shares Amount (Rs.)*   10,239 3.00,45,984 300,45,98,400 371 126,601 1,26,60,100   356 478,089 4,78,08,900 - - - -	Nos. Equity Shares Amount (Rs.) Nos. Equity Shares Amount (Rs.)* Nos.   10,239 3.00.45,984 300.45,98.400 371 126,601 1,26,60,100 9,868   356 478,089 4,78,08,900 - - - - 356	Nos. Equity Shares Amount (Rs.) Nos. Equity Shares Amount (Rs.)* Nos. Equity Shares   10,239 3,00,45,984 300,45,98,400 371 126,601 1,26,60,100 9,868 2,99,19,363   356 478,089 4,78,08,900 - - - 356 478,089

2. Summary of Allotment in various categories is as under

Category	No. of Applications	Number of Rights Equity Shares Allotted - against Entitlement (A)	Number of Rights Equity Shares Allotted - against Entitlement (B)	Total Rights Equity Shares Allotted (A+B)
Shareholders	9,868	2,08,41,516	24,20,357	2,32,61,873
Renounces	356	288,969	. 0	2,88,969
Total	10,224	2,11,30,485	24,20,357	2,35,50,842

**lion cases**: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the investors has been completed on January 17, 2023. The instructions to SCSBs for unblocking funds in case of ASBA Applications were given on January 12, 2023. The Listing application was filed with BSE and NSE on January 13, 2023 and subsequently the listing approvals were received on January 16, 2023 from BSE and NSE. The credit of Rights Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of allottees was completed on January 17, 2023 by NSDL and CSDL respectively. The trading in the Rights Equity Shares issued in the Rights issue shall commence on BSE and NSE upon receipt of trading permission. The trading is expected to commence on or about January 20, 2023. Further, in accordance with SEBI circular bearing reference - SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020 the request for extinguishment of Rights Entitlements will be sent to NSDL & CDSL on or about January 18, 2023

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the submission of the Letter of Offer to SEBI should not in any way deemed or construed that the LOF has

been cleared or approved by SEBI. The investors are advised to refer to the LOF for the full text as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures -Disclaimer Clause of SEBI" on page 184 of the LOF. DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not, in any way, be deemed or construed that

the LOF has been cleared or approved by the BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the LOF. The investors are advised to refer to the LOF for the full text of the Disclaimer clause of BSE as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of BSE" on page 187 of the LOF. DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not, in anyway, be deemed or construed that the LOF has been cleared or approved by NSE; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the LOF. The Investors are advised to refer to the LOF for the full text of the Disclaimer Clause of NSE as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of NSE" on page 187 of the LOF

## **LEAD MANAGER TO THE ISSUE**

SKP SECURITIES LTD

#### SKP SECURITIES LTD

1702-03, BioWonder, 789 Anandapur, E M Bypass, Kolkata - 700 107, West Bengal, India Tel No.: +91 33 6677 7000 Email: contact@skpsecurities.com Website: www.skpsecurities.com Investor Grievance Email:

Contact Person: Anup Kumar Sharma SEBI Registration No. INM000012670 Validity of Registration: Permanent

## KFIN TECHNOLOGIES LIMITED

(Formerly known as KFin Technologies Private Limited) Selenium, Tower B, Plot No. 31 and 32, Financial District Nanakramguda Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi 500 032 Telangana, India Telephone: +91 40 6716 2222 / 1800 309 4001 E-mail: rswm.rights@kfintech.com

REGISTRAR TO THE ISSUE

Investor grievance Email: Einward.ris@kfintech.com Website: www.kfintech.com Contact person: Murali Krishna M SEBI Registration No: INR000000221 Validity of Registration: Permanent.

#### **COMPANY SECRETARY AND** COMPLIANCE OFFICER SURENDER GUPTA

Bhilwara Towers, A-12, Sector - 1, Noida - 201 301, Uttar Pradesh, India Telephone: +91 120 439 00000 E-mail: rswm.investors@injbhilwara.com Website: www.rswm.in

Investors may contact the Registrar to Issue / Company Secretary in case of any Pre Issue/ Post Issue related problems such as non-receipt of Allotment advice/demat credit etc.

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post issue related matter. All grievances relating the ASBA process

may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs giving full details such as name, address of the applicant, contact number(s), e-mail address of the sole / first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked ASBA Account number, and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper applications as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip. For further details on the ASBA process, please refer to the section titled "Terms of the Issue - Making of an Application through the ASBA process" on page 192 of the LOF. THE LEVEL OF SUBSCRPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF

For RSWM LIMITED

Date: January 17, 2023

SURENDER GUPTA Company Secretary & Compliance Officer

Disclaimer: Our Company has filed a Letter of Offer with the Securities and Exchange Board of India and Stock Exchanges. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the websites of the Stock Exchanges where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com, and the website of the Lead Manager at www.skpsecurities.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the LOF. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States unless registered under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.